

केन्द्रीय विद्यालय, रंगिया



एतत् सर्वं पूषन् अयावृणु  
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

राजभाषा कार्यान्वयन  
समिति

सत्र - 2017-18

अध्यक्ष

रथीन्द्रनाथ सरकार

प्रभारी/संयोजक

ब्रजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

स्नातकोत्तर शिक्षक (हिन्दी)

## केन्द्रीय विद्यालय, पूर्वोत्तर सीमा रेल, रंगिया

### राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक- 29/04/2017 को प्राचार्य की अध्यक्षता में विद्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई | इसमें विद्यालय के सभी शैक्षणिक-गैर शैक्षणिक सदस्य उपस्थिति रहे | बैठक में हिन्दी के अत्यधिक प्रयोग तथा प्रसार हेतु विचार-विमर्श के पश्चात निम्न बिन्दुओं के क्रियान्वयन पर सहमति बनी -

1. प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में हिन्दी के कार्यक्रमों की अधिकता की जाए |
2. समस्त कर्मचारियों द्वारा आपसी तथा विद्यार्थियों से वार्तालाप एवं विचार-विमर्श का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी अपनाई जाए |
3. समस्त कक्षाओं/कक्षों तथा विभागों के नाम द्विभाषी रूप में अंकित किए जाए |
4. कार्यालय आदेश पंजिका, अध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका व कार्यालय की अन्य पंजिकाओं पर नाम द्विभाषी रूप में अंकित किए जाए |
5. कार्यालय तथा कर्मचारियों द्वारा पत्राचार एवं विविध सूचनाओं में हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग का प्रयत्न किया जाए | हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिया जाए |
6. हिन्दी पत्रों के आगमन-निर्गमन का समुचित रिकार्ड अलग रजिस्टर में दर्ज की जाए |
7. पत्रों पर टिप्पण कार्य अधिकाधिक (कम-से-कम 30%) हिन्दी भाषा में किया जाए |
8. सभी सगणकों को द्विभाषी रूप से कार्य करने योग्य बनाया जाए तथा कर्मचारियों द्वारा इनका प्रयोग किया जाए |
9. विद्यालय वेबसाइट द्विभाषी रूप से कार्यरत हो |
10. सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में करने का प्रयत्न किया जाए |
11. पुस्तकों की खरीद तथा विज्ञापनों पर कुल निर्धारित राशि का 50% हिन्दी भाषा पर व्यय किया जाए |
12. विद्यालय का नाम राजपत्र में अधिसूचित करवाने हेतु कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए |

अंत में प्राचार्य द्वारा हिन्दी की अधिकाधिक प्रयोग के आह्वान तथा प्रभारी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त हुई |

प्रभारी

ब्रजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव  
स्नातकोत्तर शिक्षक (हिन्दी)

अध्यक्ष

रथीन्द्र नाथ सरकार  
प्राचार्य